

प्रमाणित किया जाता है कि इस
मापी पुस्त में मशीन द्वारा अंकित
कुल-100 (सक सौ) पन्ने हैं, जो
श्री रमेश कुमार सतरा, सहायक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य
प्रमंडल, बेलदौर को निर्गत किया
जाता है।

15.5.20

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल-गोगरी

Re-Issued to JE, Shri Saket Rajan,
Beldour.

Batra
15/05/2020
AE.

Sch. XLV - Form No. 134

प्रमंडल, गोगरी DIVISION
अवर प्रमंडल, बेलदौर SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of officer _____

Date of first entry _____

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of Road—Construction of road from NH-102 Ramnagar Murasi PMGSY Road House of Rajkishore Bajaj to Navkalya Siman via Laddus Choudhary house in Beldaur Block					
Agency—Savitri Kumari					
Agreement No & Date—15 BBD/20-21					
Date of Start—13/05/20					
Date of Completion—12/02/21					
<u>Record Measurement</u>					
① Providing & fixing of working benchmark pillar					
do — do — 2/2					

Continuation

3rd year maintenance

72

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work. Construction of					
Road from N.H. 107 Komagan					
murasi P.M. 6.57. Road					
House of Rajkishor Bhat					
to Novotoliya Street via					
Loddu choudhary House					
Name of agency - Sanita Kumari					
Approved by. 15.5.20 of 25.2.2021					
Date of start. 13.05.2020					
Date of comp. 12.02.2021					

Bearing shoulders					
with soil masonry					
2x	15.00	1.00	0.15		4.50 m
2x	30.00	1.00	0.15		9.00 m
2x	30.00	1.00	0.15		9.00 m
2x	30.00	1.00	0.15		9.00 m
2x	30.00	1.00	0.15		9.00 m
2x	30.00	1.00	0.15		9.00 m
2x	30.00	1.00	0.15		9.00 m
2x	20.00	1.00	0.15		6.00 m
2x	15.00	1.00	0.15		4.50 m
Total					69.00 m

Continuation

ABST Rest of GST
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
① Restoration of Rainwater Berms with Soil moon etc. do —					
Qty used m ³ (72)					
W ₁ (1) @ 69.00 m					
Q ₁ 386.14 / m ³ = 26644 =					
② Making up Berms Shoulder strip by Soil — do —					
Qty used m ³ (73)					
W ₁ (2) @ 135.00					
Q ₁ 57.36 m = 7744 =					
③ Repairing pot holes filled with 75mm O.S.M G.T.M. do —					
Qty used m ³ (72)					
W ₁ (2) @ 27.90 m					
Q ₁ 294.22 / m ³ = 8209 =					
④ Patch repair over pot holes with 20.0mm Primer — do —					
Qty used m ³ (73)					
W ₁ (4)					
Q ₁ 23.90 m					
Q ₁ 236.66 / m ³ = 6603 =					
→ Total 49200 =					

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
⑤ Patch repair on bitums					
Surf with 20m					
Primitive Surfer					
Qty vid T.M. 2/24					
W.M. ⑤					
					$27.75m^2$
					$255.30/m^2 = 7085$
⑥ Maintenance of c.i.					
roads - do -					
Qty vid T.M. 2/24					
W.M. ⑥					
Qty. 1 H					
					$1130.67/m^2 = 1131$

⑦ Maintenance of Road					
Qty vid T.M. 2/24					
W.M. ⑦					$0.15K$
					$1077.82/Km = 16200$
⑧ Maintenance of K.M. Stone cut					
do in - do -					
Qty vid T.M. 2/24					
W.M. ⑧					
Qty - 0.18 Km					
					$623.09/m = 11200$
⑨					
Continuation					
Total					<u>576900</u>

